



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 13 पटना, बुधवार, 7 चैत्र 1940 (श0)
28 मार्च 2018 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।		3-3
	पूरक	---
	पूरक-क	4-5

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2018

सं० ई२-02-34/2014-1405—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नवल किशोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी—सह-सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के निमित्त दिनांक 13.01.2018 से 19.01.2018 तक कुल 7 (सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 20.01.2018 से 22.01.2018 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

27 मार्च 2018

सं० एल/एच०जी०-14-14/2017-2553—श्री सैयद जावेद अख्तर, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, किशनगंज को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दिनांक 30.09.2017 के प्रभाव से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-8647, दिनांक 25.09.2017 द्वारा दिनांक 30.09.2017 के अपराह्न से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई।

2. उक्त विभागीय अधिसूचना के आलोक में महानिदेशक—सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक-3687, दिनांक 27.09.2017 द्वारा दिये आदेश के आलोक में श्री मो० फैज आलम, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, कटिहार के द्वारा जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, किशनगंज का प्रभार ग्रहण किया गया।

3. गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक-3687, दिनांक 27.09.2017 द्वारा निर्गत आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 1-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

सूचना

सं० 410— मैं अंजली अमित अम्बर पति स्व० अमित अम्बर, पता—ग्राम+पो०—पांवा, थाना—दीपनगर, जिला—नालंदा शपथ पत्र संख्या 5661, दिनांक 21.4.2017 के अनुसार मैं अब अंजली अमित अम्बर के स्थान पर अंजली सिन्हा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

अंजली अमित अम्बर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 1-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 एल/एच०जी०- 1512/2016-2 3 9 7

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

23 मार्च 2018

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जयंत प्रताप सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के विरुद्ध जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना में पदस्थापन काल में कुल 58 गृह रक्षक, जिन्हें दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त होना था, उनकी प्रतिनियुक्ति पटना में जारी रखी गई एवं सरकारी राशि का भुगतान करने आदि से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र-क में विभाग को प्रतिवेदित हुआ है (यथा-अनुलग्नक प्रपत्र-‘क’ में वर्णित)।

2. उप-महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ज्ञापांक-5671, दिनांक 19.12.2016 द्वारा विभाग में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग में प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-12011, दिनांक 30.12.2016 द्वारा श्री सिंह से बचाव अभिकथन की मांग की गई। उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के पत्रांक-12/गो०, दिनांक-09.02.2017 द्वारा विभाग में कंडिकावार स्पष्टीकरण कराते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, पटना से वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरांत पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने का आवश्वासन दिया गया। पुनः जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के पत्रांक-74/गो०, दिनांक 26.09.2017 द्वारा अपना पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-3814, दिनांक 09.05.2017 एवं पत्रांक-9409, दिनांक 02.11.2017 द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना से श्री सिंह द्वारा समर्पित अंतरिम एवं पूरक स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गई। समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-313, दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्राप्त मंतव्य में दोनों आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया गया है।

5. श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन एवं मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री जयंत प्रताप सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र—'क' पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इसके लिए संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 1-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>